



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2011 (आश्विन 9, 1933)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2011 (ASVINA 9, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

| | |
|---|------|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... | 1153 |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 983 |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 15 |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 1767 |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... | * |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... | * |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को | |

| | |
|--|------|
| छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | * |
| भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... | * |
| भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... | 3301 |
| भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... | * |
| भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... | * |
| भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... | 5051 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... | 869 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... | * |

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

| | Page No. | | Page No. |
|--|-------------|---|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 1153 | Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 983 | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence | 15 | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | * |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 1767 | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 3301 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | * |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | * | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 5051 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 869 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the | | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2011

संकल्प

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में ।

सं. 5(2)/2011-डी./—इस्पात मंत्रालय के दिनांक 14.03.2011 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को इस मंत्रालय के उक्त संकल्प के पैरा 3 के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है :—

1. श्री हीरा लाल मालवीय,
553, महामना मालवीय नगर, कूँचा बाहोरमल,
इलाहाबाद-211003 (उ. प्र.)
2. सुश्री अनुसुईया शर्मा,
2 एलकेएस कॉलोनी, पूर्णिया, अलीगंज,
लखनऊ (उ. प्र.)
3. श्री हरीश बाजपेयी,
471, विजय लक्ष्मी नगर,
सीतापुर, उ. प्र.-261001
4. डॉ. अर्नेस्ट शेरेन,
सुपुत्र स्व. श्री रेमंड शेरेन, 14/80,
सिविल लाईंस, कानपुर (उ. प्र.)
5. श्री सैयद अफजल हैदर रिज़वी,
सुपुत्र श्री सैयद इकबाल हैदर,
वी-80, नेहरू एन्क्लेव,
गोमती नगर, लखनऊ (उ. प्र.)
6. श्री इरफान सैफी,
गांव व पोस्ट-खदाना,
जिला-बुलंदशहर (उ. प्र.)
7. श्री मुन्ना पाल,
सुपुत्र स्व. श्री महातिम पाल,
गांव-जकरोली, पोस्ट-प्रधान की बरेजी (मोहम्मदाबाद),
जिला-गाजीपुर (उ. प्र.)
8. श्री एस. एम. सुल्तान,
बी-2 (21), काशी राज अपार्टमेंट्स, पटेल नगर,
केन्द्रेन्मेंट्स, वाराणसी (उ. प्र.)
9. चौधरी नरसिंह पटेल अग्यानी,
सुपुत्र स्व. राम प्राद चौधरी,
बी-1, नारैस टैरेस, हजरतगंज, लखनऊ (उ. प्र.)
10. श्री अजय कुमार उपाध्याय,
नई सड़क, समीप-पोस्ट ऑफिस, कछवान बाजार,
पोस्ट कछवान, जिला-मिर्जापुर (उ. प्र.)
11. श्री खालिद बेन अफजल,
आवास रजिया मेशन,
नई बस्ती, जिला-बलरामपुर (उ. प्र.)
12. श्री शिव कुमार दुबे,
सुपुत्र श्री हरि प्रसाद दुबे,
गांव व पोस्ट-बहलोपुर, जिला-गोंडा (उ. प्र.)
13. श्री सुभाष शर्मा,
सुपुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा,
गांव व पोस्ट-सांभरा, थाना-खंडौली, तहसील-एतमादपुर,
जिला-आगरा (उ. प्र.)
14. श्री सुनील शर्मा,
4, अग्रवाल मार्केट, टीआरएम पब्लिक स्कूल के सामने,
जी. टी. रोड, मोदी नगर, गाजियाबाद (उ. प्र.)
15. श्री बदारे आलम,
गांव-गोथाहुली, पी.ओ.-जीरा बस्ती,
पी. एस.-बंसदीह रोड, जिला-बलिया (उ. प्र.)
16. श्री होरी लाल,
मकान नं. 588/470, वीआईपी रोड, बंगला बाजार,
पी.ओ.-भदरूख, लखनऊ (उ. प्र.)
17. श्री नितिन कुमार,
सुपुत्र श्री राजकुमार,
ग्राम-मलाक, पोस्ट-नीलमथा, लखनऊ (उ. प्र.)

18. श्री जगदीश राव,
सुपुत्र श्री सहदेव राव
गांव रामगढ़ खास, थाना अमोदा (छावनी बाजार),
जिला-बस्ती (उ. प्र.)
19. श्री राम सहाय वर्मा,
सुपुत्र श्री झिंकू वर्मा, ग्राम व पोस्ट देवगढ़,
थाना मेहराज गंज, जिला-फैजाबाद, अयोध्या (उ. प्र.)
20. श्री संजीव कुमार तोमर,
सुपुत्र श्री महावीर सिंह,
गांव लोयन मलकपुर, पोस्ट मलकपुर, जिला-बागपत (उ. प्र.)
पिन-250611
21. डॉ. सत्य प्रकाश चौधरी,
सुपुत्र स्व. श्री नितराम चौधरी, ग्राम मारवाटिया, पोस्ट पुरानी बस्ती,
जिला-बस्ती (उ. प्र.)
22. श्रीमती मोती सिंह,
धर्मपत्नी स्व. श्री कमला सिंह,
बी-28/10बी, घसियारी टीला, दुर्गाकुंड, वाराणसी
23. श्री कुलदीप वर्मा,
सुपुत्र श्री मोहन लाल वर्मा,
ग्राम व पोस्ट शिकारी चौरा,
जिला-श्रावस्ती (उ. प्र.) पिन-271803
24. श्री सूर्यकांत सिंह कुशवाहा,
सुपुत्र श्री साखराज सिंह कुशवाहा,
ग्राम मोलनापुर, ताल गांव, जखनिया,
तहसील जखनिया, जिला-गाजीपुर (उ. प्र.)
25. श्री विजय प्रकाश वर्मा,
सुपुत्र स्व. श्री बाबूराम वर्मा,
ग्राम व पोस्ट अमरौली, शुमाली, थाना सोन्हा,
जिला-बस्ती (उ. प्र.)
26. सुश्री राजकुमारी देवीना सिंह,
राज मंदिर, बर्नपुर, बहराईच (उ. प्र.)

2. अध्यक्ष के इस्पात मंत्री के पद पर बने रहने तक परिषद् कार्य करता रहेगा। एसएससी का आरंभिक कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से 2 वर्ष का होगा, जब तक कि इसे केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से बढ़ाया अथवा कम न किया जाए। एसएससी जब भी अपेक्षित होगा अपनी बैठक करेगी।

आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2011

संकल्प

विषय :--राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् का पुनर्गठन।

सं. 2-4/2000-ईई-3--भारत सरकार ने संकल्प सं. एफ. 2-4/2000-डेस्क (ईई) दिनांक 02 जनवरी, 2001 और 26 अगस्त, 2003 के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन किया था। मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति है।

2. भारत सरकार ने मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति के गठन में संशोधन किया है। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति में संकल्प सं. एफ.- 2-4/2000-डेस्क (ईई) दिनांक 02 जनवरी, 2001 और 26 अगस्त, 2003 के द्वारा वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त नए सदस्य शामिल किए गए हैं।

3. शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं :--

शासी परिषद्

- (i) जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
- (ii) ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
- (iii) अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री
- (iv) पंचायती राज राज्य मंत्री
- (v) युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री
- (vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

4. कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं :--

कार्यकारिणी समिति

- (i) सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय
- (ii) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- (iii) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
- (iv) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग)
- (v) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- (vi) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
- (vii) सचिव, युवा कार्य और खेल मंत्रालय
- (viii) सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्व शिक्षा अभियान के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अंशु वैश्य
सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 7th September 2011

RESOLUTION

Subject :—Constitution of Steel Consumers' Council—
regarding.

No. 5(2)/2011-DI—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 14.03.2011, the following persons are hereby nominated as non-official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel, under Para 3 of this Ministry's aforesaid Resolution :—

1. Shri Hira Lal Malviya,
553, Mahamana Malviya Nagar, Kooncha Bahormal,
Allahabad-211003 (U.P.)
 2. Ms. Anusuiya Sharma,
2, LKS Colony, Purania, Aliganj, Lucknow (U.P.)
 3. Shri Harish Bajpai,
471, Vijay Laxmi Nagar, Sitapur, U.P.-261001
 4. Dr. Ernest Sharon,
S/o Late Shri Raymond Sharon, 14/80, Civil Lines,
Kanpur, (U.P.)
 5. Shri Syed Afzal Haider Rizvi,
S/o Shri Syed Iqbal Haider,
V-80, Nehru Enclave, Gomti Nagar, Lucknow, (U.P.)
 6. Shri Irfan Saifi,
Vill. & Post-Khadana, Distt.-Bulandshahr, (U.P.)
 7. Shri Munna Pal,
S/o Late Shri Mhatim Pal,
Vill.-Jakroli, PO.-Pradhan Ki Bareji (Mohamadabad),
Distt.-Gazipur, (U.P.)
 8. Shri S. M. Sultan
B-2(21) Kashi Raj Apts., Patel Nagar,
Cantonments, Varanasi (U.P.)
 9. Chowdhary Narsingh Patel Agyani,
S/o Late Shri Ram Prasad Chowdhary,
B-1, Lawrance Terrace, Hazratganj, Lucknow (U.P.)
 10. Shri Ajay Kumar Upadhyay,
Nai Sarak, Near Post Office, Kachhvaan Bazar,
Post Kachhvaan, Distt.-Mirzapur, (U.P.)
 11. Shri Khalid Ben Afzal,
R/o Razia Mansion, Nai Basti, Distt.-Balrampur, (U.P.)
 12. Shri Shiv Kumar Dubey,
S/o Shri Hari Prasad Dubey,
Village & Post Behlolpur, Distt.-Gonda, (U.P.)
 13. Shri Subhash Sharma,
S/o Shri Bhagwati Prasad Sharma,
Village & Post Sambhra, Thana Khandauli,
Tehsil Etmadpur, Distt.-Agra (U.P.)
 14. Shri Sunil Sharma,
4, Aggarwal Market, Opp. TRM Public School,
G.T. Road, Modinagar, (Ghaziabad), (U.P.)
 15. Shri Badare Alam,
Village Gothahuli, P.O. Zira Basti,
P.S. Bansdih Road, District-Ballia (U.P.)
 16. Shri Hori Lal,
House No. 588/470, VIP Road, Bangla Bazar,
P.O. Bhadrakh, Lucknow, (U.P.)
 17. Shri Nitin Kumar,
S/o Shri Rajkumar,
Gram Malaak, Post Nilmatha, Lucknow, (U.P.)
 18. Shri Jagdish Rao,
S/o Shri Sahdev Rao,
Village Ramgarh Khas, Thana Amoda
(Chhavni Bazar), Distt.-Basti (U.P.)
 19. Shri Ram Sahay Verma,
S/o Shri Jhinku Verma,
Gram & Post Devgarh, Thana Mehraj Ganj,
Distt.-Faizabad, Ayodhya (U.P.)
 20. Shri Sanjeev Kr. Tomar,
S/o Shri Mahaveer Singh,
Village Loyan Malakpur, Post Malakpur,
Distt.-Baghpat (U.P.) Pin-250611
 21. Dr. Satya Prakash Chowdhary,
S/o Late Shri Nitram Chowdhary,
Gram Marvatia, Post Purani Basti,
Distt.-Basti, (U.P.)
 22. Smt. Moti Singh,
W/o Late Shri Kamla Singh,
B-28/10B, Ghasiari Tilla, Durgakund, Varanasi
 23. Sh. Kuldeep Verma,
S/o Shri Mohan Lal Verma,
Gram & Post Shikari Chaura,
Distt.-Shravasti, (U.P.) Pin-271803
 24. Sh. Suryakant Singh Kushwaha,
S/o Shri Sakhranj Singh Kushwaha,
Gram Maulnapur, Taal Gaon, Jakhniya,
Tehsil Jakhniya, Distt.-Ghazipur (U.P.)
 25. Shri Vijay Prakash Verma,
S/o Late Shri Baburam Verma,
Gram & Post Amrauli, Shumali, Thana Sonha,
Distt.-Basti, (U.P.)
 26. Ms. Rajkumari Devina Singh,
Raj Mandir, Barnapur, Bahraich (U.P.)
2. The Council shall continue till its Chairman holds the office of Steel Minister. The initial tenure of the SCC will be two years from the date of this Notification unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of

the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION &
LITERACY)

New Delhi, the 5th September 2011

RESOLUTION

Subject :— Reconstitution of the Governing Council and Executive Committee of the National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).

F. No. 2-4/2000-EE.3—Government of India vide resolution No. F-2-4/2000-Desk (EE) dated 2nd January, 2001 & 26th August, 2003 had set up the National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan under the Chairmanship of the Prime Minister. The Mission has a Governing Council and an Executive Committee.

2. Govt. of India has modified the composition of the Governing Council and the Executive Committee of the Mission. New members have been included in the Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) in addition to existing members notified vide resolution No. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 2nd January, 2001 & 26th August, 2003.

3. The following members are included in the governing Council :—

GOVERNING COUNCIL

- (i) Minister of State for Tribal Affairs
- (ii) Minister of State for Rural Development

- (iii) Minister of State for Minority Affairs
- (iv) Minister of State for Panchayati Raj
- (v) Minister of State for Youth Affairs & Sports
- (vi) Minister of State for DoNER

4. The following members are included in the Executive Committee:—

EXECUTIVE COMMITTEE

- (i) Secretary, Ministry of Women & Child Development
- (ii) Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment
- (iii) Secretary, Ministry of Tribal Affairs
- (iv) Secretary, Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water & Sanitation)
- (v) Secretary, Ministry of Minority Affairs
- (vi) Secretary, Ministry of Panchayati Raj
- (vii) Secretary, Ministry of Youth Affairs & Sports
- (viii) Secretary, Ministry of DoNER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Sarva Shiksha Abhiyan.

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANSHU VAISH
Secy.